


आजादी का अमृत महोत्सव (India@75) कार्यक्रम के दौरान दिनांक 19.07.2021 को केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला में "स्वस्थ रहने के लिए प्राचीन भारतीय परम्पराएं" के विषय पर श्री एन. वी. महूरे, वैज्ञानिक 'ई' द्वारा ऑनलाइन भाषण दिया गया । [#आजादीकाअमृतमहोत्सव](#)

Medicines

क प्रणालियों में से ग्लूकोस-फ्रुक्टीस है। प्रणाली की उत्पत्ति

में देवताओं के ने इसे ब्रह्मा से प्राप्त

में मिलता है। ज्ञाता है। सा पूर्व तक फलती



Dr. R. Chitra, Director, CSMRS

Hari Dev Swan

Layout

Particip

Q Search

BA

DO

DC

DP

DC

DG

DH

DC

EB

HP

HS

LS

MB

NS

NA



PK

PJ

RP

Viewing N V Mahure's appli...

निकला है।
द करता है।
य (digestion) की ऊर्जा है।
अम्ल, हार्मोन, एंजाइम और बाइल
रल प्रकृति है।
तंत्रिका समन्वय और भूख और
है।
गे बढ़ा देती है।



Unmute

Start video

Share

Record

...

X

थ्य

आ, आषाढ़े बेर।
रेला, कार्तिक माही,
॥ तो पर है सही।

आषाढ़ में बेर खाने वाला, सावन में दूध पीने
गर्तिक में मट्ठा खाने वाला
कर बीमार पड़ जाता है।

हमें किस मौसम में किस प्रकार का भोजन
हिए। यह भी उल्लेख है कि किस मौसम में
स्थ और निरोग बना रहे।



f Life Science

